

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 312  
मंगलवार, 15 सितंबर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 (शक)  
को दिया जाने वाला उत्तर

कोविड-19 के बाद घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के उपाय

312. डा. अमर पटनायक:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार वित्तीय वर्ष 20-21 के दौरान क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घरेलू पर्यटकों को प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है;
- (ख) यदि हां, तो कोविड-19 के बाद घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) कोविड के बाद ओडिशा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (ग): पर्यटन मंत्रालय नागरिकों को देश के भीतर यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक कार्यकलाप कर रहा है। **MyGov** प्लेटफार्म पर देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों के साथ-साथ एक देखो अपना देश शपथ को आरंभ किया गया है। शपथ लेने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय लकी डिप के माध्यम से इसमें भाग लेने वालों को अतुल्य भारत स्मारक चिन्ह प्रदान कर रहा है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को भागीदारी प्रमाण पत्र के साथ ईबीएसबी से जुड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पेड हॉलीडेज के रूप में पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं।

यह मंत्रालय कोविड के पश्चात् पर्यटन क्षेत्र को बहाल किए जाने से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों के साथ नियमित रूप से विचार-विमर्श कर रहा है और मंत्रालय ने व्यवसाय की सुरक्षित बहाली के लिए यात्रा एवं आतिथ्य उद्योग के विभिन्न वर्गों के लिए प्रचालन संबंधी सिफारिशें जारी की हैं। मंत्रालय ने बाजार विकास सहायता योजना के दिशानिर्देशों की समीक्षा

के लिए उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ योजना के क्षेत्र और पहुंच में वृद्धि के लिए विचार-विमर्श भी किया है ।

इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने ओडिशा सहित देश में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए गतिविधियां की हैं:

- i. ओडीशा सहित देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की विविधतापूर्ण संस्कृति, विरासत, गंतव्यों और पर्यटन उत्पादों का प्रदर्शन करते हुए देखो अपना देश की समग्र थीम के तहत वेबीनारो का आयोजन किया जा रहा है ।
- ii. यह मंत्रालय देश के विभिन्न पर्यटक आकर्षणों के संबंध में प्रचलित दैनिक पत्रों में लेख प्रकाशित कर रहा है । देश के प्रचलित तथा कम प्रचलित पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों के संबंध में रेडियो स्टेशनों/टेलीविजन चैनलों पर साक्षात्कारों/वार्ताओं का आयोजन किया जा रहा है ।

\*\*\*\*\*